



केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

TRIPLICATE

सिलचर संभाग/SILCHAR REGION

केन्द्रीय विद्यालय/ KENDRIYA VIDYALAYA SILCHAR

स्थानांतरण प्रमाण-पत्र TRANSFER CERTIFICATE

PEN-20796448903

<https://silchar.kvs.ac.in/>

| kvsilchar1@gmail.com

Email Id.....

Website.....

94201

पुस्तक सं/ Book No. SIL **913** प्रवेश सं/ Admission No. **7028** स्था. प्र.प.सं/ T.C. No.....

- विद्यार्थी का नाम/ Name of student **AYEKPAM KICHA**
- पिता/ संरक्षक का नाम/ Father's / Guardian's Name **AYEKPAM CHANDRATIT SINGH**
- माता का नाम/ Mother's Name **LAISHRAM ROSHITA DEVI**
- राष्ट्रियता/ Nationality **INDIAN**
- क्या विद्यार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है ? Whether the candidate belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribes? **NO**
- विद्यालय में प्रथम प्रवेश की तिथि और कक्षा
Date of first admission in the Vidyalaya with class **25-03-2014 in Class 1A**
- प्रवेश रजिस्टर के अनुसार जन्मतिथि इस्वी सन अंकों में / शब्दों में
Date of birth (in Christian Era) Figures **16-11-2008** Words **Sixteenth November**
- अंतिम कक्षा जिसमें विद्यार्थी ने अध्ययन किया।
Class in which the student last studied, Figures **XI-A** Words **Eleven A**
- विद्यालय बोर्ड की अंतिम वार्षिक परीक्षा और उसका परिणाम
School /Board Annual Examination last taken with result **Promoted to Class XII-A**
- क्या विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा यदि हाँ, तो उसी कक्षा में क्या एक बार दो बार
Whether failed, if so once/twice in the same class? **NO**
- पढ़े गये विषय/ Subjects studied
अनिवार्य/ Compulsory 1 **ENGLISH** 2 **MATHEMATICS** 3 **BIOLOGY** 4 **PHYSICS**
वैकल्पिक/ Elective 1 **CHEMISTRY** 2 **PHYSICS** 3 **BIOLOGY** 4 **PHYSICS**
- क्या उच्चतर कक्षा में जाने योग्य है? यदि हाँ तो किस कक्षा में/Whether qualified for promotion to higher class if so, to which class **studying in XII/A** (Words) **studying in class XII/A**
- माह जिस तक विद्यार्थी ने विद्यालय की देय राशियों का भुगतान कर दिया है
Month upto which the student has paid school dues **UP TO JUNE**
- क्या किसी शुल्क में रियायत प्राप्त की गयी है? यदि हाँ तो रियायत किस प्रकार की?
Any fee concession availed of. If so, the nature of such concession.....
- कार्य दिवसों की कुल संख्या
Total No. of working days **21 days**
- कार्य दिवसों की कुल उपस्थिति के दिन
Total No. of working days present **21 days**
- क्या एन. सी.सी. कैडेट / बालचर / बालचारिका (बॉय स्काउट गर्ल गाइड) है। ब्योरा दें।
Whether NCC Cadet / Boy Scout / Girl Guide (Details may be given).....
- खेले गये खेल या अतिरिक्त पाठ्य-चर्चा क्रिया-कलाप जिसमें विद्यार्थी ने सामान्यतया भाग लिया हो
उसमें उपलब्ध स्तर का उल्लेख करें) Games played or Extra-carricular activities in which the student usually took part (mention achievement level therein)* **GOOD**
- सामान्य आचरण /General Conduct.....
- प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन की तिथि/Date of Application for Certificate..... **03/05/2025**
- प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि/Date of Issue of Certificate..... **03/05/2025**
- विद्यालय छोड़ने का कारण /Reason for leaving the School..... **Parents Got Transferred**
- कोई अन्य अभ्युक्ति/Any other remarks.....

कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर
Signature of Class Teacher
पूरा नाम/Full Name

जांच करने वाले के हस्ताक्षर /Checked by
(पूरा नाम और पद नाम)
(Full name and designation)

प्रचार्य के हस्ताक्षर और नाम
Principal's signature and name
मोहर सहित (with stamp)
केन्द्रीय विद्यालय सिलचर
Kendriya Vidyalaya SILCHAR